

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद सोनभद्र

दिनांक-04.11.2021

एस.ओ.जी., स्वाट व थाना म्योरपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम नवाटोला में हुई महिला की हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण व घटना में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त को आलाकत्ल के साथ किया गया गिरफ्तार~

दिनांक 01.11.2021 को थाना म्योरपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम नवाटोला में सीमा पत्नी गयादीन गुप्ता निवासी नवाटोला की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गयी। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 82/2021 धारा -498ए,302,201 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु एवं घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी दुबई के निकट प्रर्यवेक्षण में स्वाट,एस.ओ.जी व थाना म्योरपुर पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस टीम द्वारा अथक लगन व प्रयासों से घटना में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त गयादीन पुत्र स्व0 विश्वनाथ गुप्ता निवासी नवाटोला थाना म्योरपुर को उसके नवाटोला स्थित घर के पास से प्रातः लगभग 06.00 बजे गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आला कत्ल सब्बल (रम्मा) बरामद किया गया।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैंने अपनी पत्नी संध्या देवी उर्फ सीमा देवी को दिनांक - 01.11.2021 की भोर में उसकी हत्या कर दिया था क्योंकि मेरी पत्नी द्वारा मुझे बताया गया था कि मैं तंत्र विद्या सीख रही हूं क्योंकि उसकी शादी जिस भी व्यक्ति से होगी 12 साल के अन्दर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जायेगी। मेरी शादी वर्ष 2010 में हुई थी जिसके 12 वर्ष पूरे होने वाले थे इसी भय में आकर मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त~

1- गयादीन गुप्ता पुत्र स्व0 विश्वनाथ गुप्ता निवासी नवाटोला थाना म्योरपुर।
बरामदगी~

2- आला कत्ल 01 अदद सब्बल(रम्मा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम~

1. श्री धीरेन्द्र कुमार चौधरी प्रभारी एस.ओ.जी. टीम सोनभद्र मय टीम।
2. थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार त्रिपाठी थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र।
3. उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी प्रभारी स्वाट टीम सोनभद्र मय टीम।
4. हे0का0 जमालुद्दीन, थाना म्योरपुर सोनभद्र।
5. का0 प्रवीण कुमार राय, थाना म्योरपुर सोनभद्र।
6. म0का0 खुशबू थाना म्योरपुर सोनभद्र।